

# Psa

## Chapter 44

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

סָפְרוּ- बताया	אָבוֹתֵינוּ पिताओं-हमारे	שָׁמְעֵנוּ सुना-हमने	בְּאָזְנוּנוּ में-कानों-हमारे	אֱלֹהִים एलोहीम	מִשְׁכִּיל: मस्कील	קָרַח कोरह-के	לְבָנֵי- ले-बेटों-के	לְמַנְצֵחַ ले-प्रधान-संगीतकार-के	1	
	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H0241</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H4905</a>	<a href="#">H7141</a>		<a href="#">H5329</a>		
				קָדָם: प्राचीन-के	בְּיָמָיו में-दिनों	בְּיָמֵיהֶם में-दिनों-उनके	פָּעַלְתָּ किया-तूने	פָּעַל काम	לָנוּ ले-हमें	
					<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H6466</a>	<a href="#">H6467</a>		
	וְהִשְׁלַחְתָּם: और-फैलाया-उन्हें	לְאֲמִים लोगों-को	תָּרַע दुख-दिया-तूने	וַתִּטְעֵם और-रोपा-उन्हें	הִוְרַשְׁתָּ निकाला	גּוֹיִם जातियों-को	יָדָךְ हाथ-तेरे	אֶתְּךָ तू	2	
	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H3816</a>		<a href="#">H5193</a>	<a href="#">H3423</a>		<a href="#">H3027</a>			
כִּי- परन्तु	לָמוֹ उन्हें	הוֹשִׁיעָה बचाई	לֹא- नहीं	וַיִּזְרְעֵם और-भुजा-उनकी	אֶרֶץ देश	יָרָשׁוּ पाई-उन्होंने	בְּחַרְבָּם से-तलवार-अपनी	לֹא नहीं	כִּי क्योंकि	3
	<a href="#">H3467</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H2220</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3423</a>	<a href="#">H2719</a>	<a href="#">H3808</a>			
			רָצִיתָם: प्रसन्न-था-तू-उनसे	כִּי क्योंकि	פִּנְיָךְ मुख-तेरे-का	וְאוֹר और-प्रकाश	וַיִּזְרְעֵךְ और-भुजा-तेरी	יָמִינֶךָ दाहिना-हाथ-तेरा		
			<a href="#">H7521</a>		<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H0216</a>	<a href="#">H2220</a>	<a href="#">H3225</a>		
		יַעֲקֹב: याकूब-के-लिए	יְשׁוּעוֹת विजयों	צָוָה आज्ञा-दे	אֱלֹהִים एलोहीम	מַלְכִי राजा-मेरा	הוּא ही	אֶתְּךָ तू	4	
		<a href="#">H3290</a>	<a href="#">H3444</a>	<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H1931</a>			
	קָמִינוּ: उठनेवालों-हमारे-विरुद्ध-को	נָבוֹס कुचलेंगे-हम	בְּשֵׁמֶךָ में-नाम-तेरे	נִנְּחָה पछाड़ेंगे-हम	צָרֵינוּ शत्रुओं-हमारे-को	בָּךְ में-तुझ			5	
		<a href="#">H0947</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H5055</a>						
	תוֹשִׁיעֵנִי: बचाएगी-मुझे	לֹא नहीं	וְחַרְבִי और-तलवार-मेरी	אֲבֹתָךְ भरोसा-करूंगा-मैं	בְּקִשְׁתִּי पर-धनुष-अपने	לֹא नहीं	כִּי क्योंकि		6	
	<a href="#">H3467</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H2719</a>	<a href="#">H0982</a>	<a href="#">H7198</a>	<a href="#">H3808</a>				
	הַבִּישׁוֹת: लज्जित-किया-तूने	וּמִשְׁנֵאֵינוּ और-बैर-करनेवालों-हमारे-को	מִצָּרֵינוּ से-शत्रुओं-हमारे	הוֹשִׁיעָנוּ बचाया-तूने-हमें	כִּי परन्तु				7	
	<a href="#">H0954</a>	<a href="#">H8130</a>		<a href="#">H3467</a>						
סֵלָה: सेला	נוֹרָה धन्यवाद-देंगे-हम	לְעוֹלָם ले-सर्वदा	וְשֵׁמֶךָ और-नाम-तेरे-का	הַיּוֹם दिन	כָּל- सब	הַלְלוּנוּ घमण्ड-करते-हैं-हम	בְּאֱלֹהִים में-एलोहीम		8	
	<a href="#">H5542</a>	<a href="#">H3034</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0430</a>			
	בְּצַבָּאוֹתֵינוּ: में-सेनाओं-हमारी-के-साथ	תִּצָּא निकलता-तू	וְלֹא- और-नहीं	וַתְּכַלִּימֵנוּ और-लज्जित-किया-हमें	וַנִּחַת त्याग-दिया-तूने	אֶתְּךָ परन्तु			9	
		<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3637</a>		<a href="#">H0637</a>				
	לָמוֹ: ले-अपने-लिए	שָׁסוּ लूटा	וּמִשְׁנֵאֵינוּ और-बैर-करनेवालों-हमारे	צָר शत्रु-के	מִנֵּי- से	אָחוֹר पीछे	הוֹשִׁיעָנוּ मुड़ाया-तूने-हमें		10	
		<a href="#">H8154</a>	<a href="#">H8130</a>			<a href="#">H0268</a>	<a href="#">H7725</a>			
	וַיִּרְתְּנוּ: तितर-बितर-किया-हमें	וּבְנֵיהֶם और-में-जातियों-के-बीच	מֵאֲכָל भोजन-के-लिए	כִּצְאוֹ जैसे-भेड़ें	וַתִּתְּנוּ दिया-तूने-हमें				11	
	<a href="#">H2219</a>		<a href="#">H3978</a>	<a href="#">H6629</a>	<a href="#">H5414</a>					

12	תְּמַכְרֶה- बेचा-तूने	עֲמָרָה लोगों-अपने-को	בְּלֹא- में-बिना	הָיוּ धन-के	וְלֹא- और-नहीं	רְבִית बढ़ाया-तूने	בְּמַחִירָהֶם: में-दाम-उनके	H4376	H3808	H1952	H3808	H4242			
13	תְּשִׂימֵנוּ बनाया-तूने-हमें	נִינְדָה निन्दा	לְשִׁבְנוּ ले-पड़ीसियों-हमारे-के-लिए	לְעַג ठट्टा	וְקָלַס और-उपहास	לְסַבִּיבוֹתֵינוּ: ले-आसपासवालों-हमारे-के-लिए		H2781	H7934	H3933	H7047	H5439			
14	תְּשִׂימֵנוּ बनाया-तूने-हमें	מִשְׁלַח दृष्टान्त	בְּנוֹת में-जातियों-के-बीच	מְנוּדָה- हिलाना	בְּ- में	אֲמִים: लोगों-के-बीच		H4912	H4493	H3816	H3816	H3816			
15	כָּל- सब	הַיּוֹם दिन	בְּלִמְתֵי अपमान-मेरा	נִגְדִי सामने-मेरे	וּבְשֵׁת और-लज्जा	פִּנִי मुख-मेरे-की	כִּסְתָנִי: ढांप-लिया-मुझे	H3605	H3117	H3639	H5048	H1322	H6440	H3680	
16	מִקְוֵל से-आवाज	מִחֲרָף निन्दा-करनेवाले-की	וּמְנוּדָה और-निन्दा-करनेवाले-की	מִפְנֵי से-सामने	אֵיב शत्रु-के	וּמְתַנְקֵם: और-बदला-लेनेवाले-के		H1442	H6440	H0341	H5358	H5358			
17	כָּל- सब	זֹאת यह	בְּאֶתְנוּ आ-पड़ा-हमपर	וְלֹא परन्तु-नहीं	שָׂכַחְנוּ भूले-हम-तुझे	וְלֹא- और-नहीं	שָׁקְרוּ झूठ-बोले-हम	בְּבִרְיָה: में-वाचा-तेरी	H3605	H2063	H0935	H3808	H7911	H8266	H1285
18	לֹא- नहीं	נִסְוֵג फिरा	אֶחָזֵר पीछे	לְבָנוּ हृदय-हमारा	וְהָט और-हटे	אֲשֵׁרֵינוּ कदम-हमारे	מִנִּי से	אֶרְחָק: मार्ग-तेरे	H3808	H5472	H0268	H5186	H0734		
19	כִּי परन्तु	רְכִיחָנוּ कुचला-तूने-हमें	בְּמִקְוֵם में-स्थान	תְּנִים गीदड़ों-के	וְתָס और-ढांपा	עָלֵינוּ हमें	בְּצַלְמוֹת: में-छाया-मृत्यु-की		H1794	H4725	H3680	H6757			
20	אִם- यदि	שָׁכַחְנוּ भूले-होते-हम	שֵׁם नाम	אֵלֹהֵינוּ एलोहीम-हमारे-का	וּנְפָרֵשׁ या-फैलाए-होते	כְּפִינֵנוּ हाथ-हमारे	לְאֵל ले-एल	זָר: पराए-की-ओर	H7911	H8034	H0430	H6566	H3709	H0410	
21	הֲלֹא क्या-नहीं	אֵלֹהִים एलोहीम	יִחְקָר- खोज-निकालता	זֹאת यह	כִּי- क्योंकि	הוּא वह	יָדַע जानता-है	לֵב: हृदय-के	H3808	H0430	H2713	H2063	H1931	H3045	H8587
22	כִּי- फिर-भी	עָלִי तेरे-कारण	הִרְגֵנוּ मारे-जाते-हैं-हम	כָּל- सब	הַיּוֹם दिन	נִזְכָּרְנוּ गिने-जाते-हैं-हम	כְּצֹאן जैसे-भेड़ें	טִבְחָה: वध-के-लिए	H2026	H3605	H3117	H2803	H6629	H2878	
23	וְעָרָה जाग	לָמָּה क्यों	וַתִּשָּׂן सीता-है-तू	אֲדֹנָי आदोनाई	רָקִיבָה उठ	אֶל- मत	תָּנַח त्याग	לְגִצָּח: ले-सर्वदा-के-लिए	H5782	H4100	H3462	H0136	H6974	H0408	H5331
24	לָמָּה- क्यों	פָּנִיךָ मुख-अपना	תִּסְתִּיר छिपाता-है-तू	תִּשְׁכַּח भूलता-है	עָנִינוּ दुख-हमारा	וְלִחְצָנוּ: और-सताव-हमारा		H4100	H6440	H5641	H7911	H6040	H3906		
25	כִּי क्योंकि	שָׁחָה झुक-गया	לְעַפְרָה ले-धूल-में	נִפְשָׁנוּ प्राण-हमारा	רָבְבָה चिपक-गया	לְאַרְצָן ले-भूमि-से	בְּטָנְנוּ: पेट-हमारा		H7743	H6083	H5315	H1692	H0776	H0990	
26	קָוְמָה उठ	עֲזָרְתָה सहायता-के-लिए	לָנוּ हमारी	וּפָרְנוּ और-छुड़ा-हमें	לְמַעַן ले-निमित्त	חַסְדֶּךָ: करुणा-तेरी-के		H5833	H6299	H4616					